

विशेष रिपोर्ट

# बुलियन


( मई 2024 )



**smc**


moneywise. be wise.

अप्रैल 2024 में सराफा की कीमतों में बदलाव (% में)



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

जनवरी-अप्रैल 2024 में सराफा की कीमतों में बदलाव (% में)



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

अप्रैल में, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरी मासिक बढ़त दर्ज की गई क्योंकि भू-राजनीतिक जोखिमों और केंद्रीय बैंक की ओर से मांग ने सराफा की मांग को बढ़ा दिया। सोना नई गति पकड़ रहा है क्योंकि मुद्रास्फीति का खतरा पहले की तुलना में कम है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, केंद्रीय बैंकों द्वारा रिकॉर्ड खरीदारी, स्थिर मुद्रास्फीति को लेकर चिंता और अमेरिकी सरकार के बढ़ते कर्ज के कारण सोने की कीमतें 2448 डॉलर के अब तक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। मार्च के लिए उम्मीद से अधिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति रिपोर्ट ने फेड दर में कटौती की व्यापारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार केंद्रीय बैंकों ने रिकॉर्ड पर 2024 की पहली तिमाही में ऐसी किसी भी अन्य अवधि की तुलना में अधिक सोना खरीदा। सोने की खनन कंपनी बैरिक गोल्ड ने कहा कि उसने साल के पहले तीन महीनों में 940,000 औंस सोने का उत्पादन किया, जो पिछले साल की पहली तिमाही में उत्पादित 952,000 औंस से लगभग 1% कम है। लेकिन सोने की ऊंची कीमतें कम उत्पादन की भरपाई करती हैं। फिर भी मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव को लेकर चिंता कम होने के कारण सोने की कीमतों में कुछ सुरक्षित निवेश की माँग कम हो गई। सुरक्षित निवेश के लिए माँग में ढील ने भी सोने को अमेरिकी ब्याज दरों पर लंबे समय के लिए उच्च दृष्टिकोण के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है, खासकर पिछले दो हफ्तों में फेडरल रिजर्व के सख्त संकेतों और स्थिर मुद्रास्फीति आंकड़ों के बाद।

आउटलुक

- सोने की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है क्योंकि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित छोड़ दिया है और यह स्वीकार करते हुए नरम रुख अपना लिया है कि मुद्रास्फीति कम करने की दिशा में प्रगति रुक गई है। सोना, जिसे अक्सर मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है, को केंद्रीय बैंक के संकेत से लाभ हुआ कि निकट अवधि में दरों में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं है।
- पॉवेल ने स्वीकार किया कि केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति के नीचे की ओर बढ़ने पर अधिक विश्वास नहीं मिल रहा है, जो दर वृद्धि में संभावित ठहराव के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है।
- स्थिर मुद्रास्फीति के संकेतों के कारण व्यापारियों ने फेड द्वारा निकट अवधि में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को काफी हद तक कम कर दिया। केंद्रीय बैंक को अब

केवल सितंबर में या इस साल चौथी तिमाही में दरों में कटौती की उम्मीद है।

- विश्लेषकों ने 2024 में सोने की कीमत के अपने पूर्वानुमान को बढ़ा दिया है, और उम्मीद है कि भू-राजनीतिक संकट निवेशकों को सुरक्षित-संपत्ति में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा और केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने भंडार को बढ़ाने के कारण कीमतों में रिकॉर्ड-तोड़ वृद्धि होगी।
- सिटीग्रुप अब छह से 18 महीनों में सोने की कीमत 3,000 डॉलर होने का अनुमान लगा रहा है, जबकि गोल्डमैन को उम्मीद है कि साल के अंत तक सोना 2,700 डॉलर तक पहुंच जाएगा, और यूबीएस ने अपने साल के अंत के लक्ष्य को बढ़ाकर 2,500 डॉलर प्रति औंस कर दिया है।
- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की पहली तिमाही-2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सोने की कुल मांग साल-दर-साल 3% बढ़कर 1,238 टन हो गई, जो 2016 के बाद से पहली तिमाही में सबसे अधिक मांग है।
- केंद्रीय बैंकों ने तेजी से सोना खरीदना जारी रखा, जिससे तिमाही के दौरान वैश्विक स्तर पर आधिकारिक होल्डिंग में 290 टन की बढ़ोतरी हुई।
- पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी खरीददारी की गति को पहली तिमाही में जारी रखा, और तिमाही के दौरान अपने सोने के भंडार में 27 टन की वृद्धि दर्ज की।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली तिमाही के दौरान अपने सोने के भंडार में 19 टन की वृद्धि की, जो पिछले साल की शुद्ध वार्षिक खरीद (16 टन) से अधिक है।
- तुर्की के सेंट्रल बैंक ने पहली तिमाही के दौरान सोना जमा करना जारी रखखा। इसने 30 टन सोना खरीदा, जिससे उसका स्वर्ण भंडार 570 टन हो गया।
- बार और सिक्का निवेश में साल-दर-साल 3% की वृद्धि हुई, जो 2023 की चौथी तिमाही से 312 टन के समान स्तर पर स्थिर रहा।
- वैश्विक स्तर पर होल्डिंग में 114 टन की गिरावट के साथ सोने के ईटीएफ में निकासी जारी रही।
- रिकॉर्ड-उच्च कीमतों के बावजूद, वैश्विक स्तर पर आभूषण की मांग लचीली बनी रही, और साल-दर-साल केवल 2% की गिरावट हुई।
- इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एआई बूम के कारण प्रौद्योगिकी में सोने की मांग में साल-दर-साल 10% की बढ़ोतरी हुई।
- पहली तिमाही में सोने की औद्योगिक मांग साल-दर-साल 10% बढ़कर 79 टन हो गई। यह वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सुधार के कारण हुई है, जिसमें साल-दर-साल 13% की वृद्धि देखी गई और यह 64 टन हो गया।
- आपूर्ति को देखा जाय तो, खदानों से सोने का उत्पादन साल-दर-साल 4% बढ़कर 893 टन हो गया-जो पहली तिमाही में एक रिकॉर्ड है।
- विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, ऐतिहासिक ऊंचाई पर कीमतें पहुंचने के बावजूद मजबूत आर्थिक माहौल के कारण मार्च तिमाही में भारत में सोने की मांग सालाना 8 प्रतिशत बढ़कर 136.6 टन हो गई।
- पहली तिमाही में भारत में सोने के बार और सिक्कों में निवेश अच्छा रहा, जो साल-दर-साल 19% बढ़कर 41 टन हो गया।
- भारत में सोने के आभूषणों की मांग 95 टन थी, जो तुलनात्मक रूप से कमजोर पहली तिमाही-23 से 4% अधिक है। भारत का निरंतर मजबूत व्यापक आर्थिक माहौल सोने की खपत के लिए सहायक था।
- परिषद ने कहा कि 2024 की पहली तिमाही में भारत में सोने का कुल आयात 179.4 टन हुआ है, जो 2023 की पहली तिमाही के 143.4 टन की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

एमसीएक्स में सोने की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



कोमेक्स में सोने की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



एमसीएक्स में चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



कोमेक्स में चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



मई में सोने की कीमतों के अधिक अस्थिरता के साथ 68000-74000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है और चांदी की कीमतें 76000-86000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
 11/6B, Shanti Chamber,  
 Pusa Road, New Delhi - 110005  
 Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
 Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
 Graham Firth Steel Compound, Off Western  
 Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
 (East) Mumbai - 400063  
 Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
 5th Floor, Kolkata-700001  
 Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
 Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएनई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉर्पोरेट नेशनल कर्मांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्ज बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिक्वोरिटीज मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रापकता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सर्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं विद्यता प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कर्मांडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौंपों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।